

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-104/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, थानखम्हरिया, जिला बेमेतरा (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. थानखम्हरिया नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

| वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम                |
|---------------|-----------------------------|
| 01            | गुरुघासीदास वार्ड           |
| 02            | धर्मशाला वार्ड              |
| 03            | जवाहर लाल नेहरू वार्ड       |
| 04            | गोल बाजार वार्ड             |
| 05            | महंतजी वार्ड                |
| 06            | माता देवाला वार्ड           |
| 07            | शीतला माता वार्ड            |
| 08            | रानी दुर्गावती वार्ड        |
| 09            | लाल बहादुर शास्त्री वार्ड   |
| 10            | महात्मा गांधी वार्ड         |
| 11            | मुसलमान पारा वार्ड          |
| 12            | मां दंतेश्वरी वार्ड         |
| 13            | श्रीमति इंदिरा गांधी वार्ड  |
| 14            | डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड     |
| 15            | नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड |

## थानखम्हरिया नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्र. 01 गुरुघासी दास वार्ड

- उत्तर — जगदीश यदु अनंदराम मेहर के मकान से हरी नारंग के मकान दिवाकर महाराज के मकान को सम्मिलित करते हुए गीता नारंग के मकान तक।
- पूर्व — गीता नारंग के मकान से थानेदार के क्वाटर होते हुए मंगल भवन, पुराना ग्राम पंचायत भवन तक।
- दक्षिण — पुराना ग्राम पंचायत भवन से लाल बहादुर के मकान होते हुए राघवेन्द्र के मकान तक।
- पश्चिम — राघवेन्द्र के मकान से जैतखाम के पास से परगम के मकान होते हुए सुलभ शौचालय से गली क्रॉस जगदीश यदु के घर तक।

### वार्ड क्र. 02 धर्मशाला वार्ड

- उत्तर — मुन्ना मांडले के घर से उमरावनगर पहुच मार्ग माई मंदिर शनि मंदिर होते हुए प्यारे सिन्हा, संतोष सिन्हा के मकान गली क्रॉस कर जैतराम सिन्हा, छेदू श्रीवास के मकान तक।
- पूर्व — छेदू श्रीवास के मकान से अमरलाल खेतहा के मकान होते हुए सूर्यनारायण टिकेश्वर यादव गली क्रॉस सुशील बांगली के घर तक।
- दक्षिण — सुशील बांगली के घर बैंक आफ बड़ौदा (देना बैंक) डां आर.पी. शर्मा हॉस्पिटल से महेन्द्र सिंह विरदी, पवन मुरारका के मकान होते हुए ठाकुर मेडिकल तक।
- पश्चिम — ठाकुर मेडिकल से शासकीय पुराना हॉस्पिटल मुरारी तिवारी हॉटल से पुलिस थाना परिसर होते हुए मुन्ना माण्डले के घर तक।

### वार्ड क्र. 03 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर — आशीष राजपूत के मकान से श्रवण सिन्हा, गुरुचरण सिंह, सुमीत जैन रोड क्रॉस कर बली कुंभकार के घर से भानुप्रताप सिंह, रामवतार सिंह ठाकुर के घर तक।
- पूर्व — रामवतार सिंह ठाकुर के घर से इकबाल, राजेश सिंह ठाकुर के मकान चतरु अग्रवाल, कन्या उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला मेहत्तर के मकान होते हुए करिया मील को सम्मिलित करते हुए प्रेम परमार सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नरेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान तक।
- दक्षिण — नरेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान से सहदेव कोराम रोड क्रॉस कर चिन्तामणी सिन्हा (हेमन्त रेस्टोरेन्ट) के घर होते हुए पंचराम निर्मलकर, रामाधार सिन्हा, राज सिन्हा मोती सिन्हा के घर तक।
- पश्चिम — मोती सिन्हा के घर से डॉ. मस्तुरिया, नरेन्द्र पाटिल, सीताराम सिन्हा, रामलाल देवांगन से साईनाथ पब्लिक स्कूल को सम्मिलित करते हुए योगेश साहू मोबाईल दुकान से आशीष राजपूत के घर तक।

**वार्ड क्र. 04 गोल बाजार वार्ड**

- उत्तर — सुरजीत के घर से रोड क्रास कर सुरेश केडिया के घर के सम्मिलित करते हुए शंकर केडिया के मकान तक।
- पूर्व — शंकर केडिया के मकान से बजरंग केडिया, रामसिंह के घर होते हुए गली क्रास कर विष्णु बुक डिपो से गली कासिंग कर सुमीत जैन बलदेव बाड़ा जल मोंगरा तालाब विश्वराज सिंह, संजय बाड़ा तक।
- दक्षिण — संजय बाड़ा गणेश अग्रवाल के घर से राघव काम्पलेक्स रोड क्रास कर योगेश सिंघानिया के घर तक।
- पश्चिम — योगेश सिंघानिया के घर से हरि सेन जमात मंदिर को शामिल कर अशोक जोशी, गोविन्द शर्मा रोड क्रासिंग कर पुराना धर्मशाला को सम्मिलित करते हुए सुरजीत के घर तक।

**वार्ड क्र. 05 महंतजी वार्ड**

- उत्तर — गजन बाई, मुन्ना यादव, जयकरण, बिसवंतीन के मकान से गली क्रास कर द्वारिका धोबी, हरिकृष्ण बनछोड़ सहबान अली, घनश्याम अग्रवाल, सुशीला यादव रोड क्रासिंग कर गणेश दुबे, अजीम खान बालक हाई स्कूल तक।
- पूर्व — बालक हाई स्कूल से परविन्दर सिंह, माण्डले बाबू के घर होते हुए गली के दोनों ओर बलराम बैस के घर तक।
- दक्षिण — बलराम बैस के घर से मिडिल स्कूल, कंट्रोल के दुकान, भैया जी मकान होते हुए रुही बाई के मकान तक।
- पश्चिम — रुही बाई के मकान से कमलेश निर्मलकर रोड क्रास कर बिहारी निर्मलकर, खेलावन भोई रोड क्रास कर गजन बाई के मकान तक।

**वार्ड क्र. 06 माता देवाला वार्ड**

- उत्तर — कार्तिकराम मरार के घर से जगमोहन यादव, गणेश निर्मलकर, बंशी निर्मलकर, अजय नागवंशी के मकान तक।
- पूर्व — अजय नागवंशी के मकान से जयराम यादव, रामजी यादव, जगदीश यादव विश्वकर्मा मंदिर तालाब पार होते हुए शंकर कुंभकार के घर तक।
- दक्षिण — शंकर कुंभकार के घर से मनोज कुंभकार, शीतला मानस मंच, परस साहू, धनराज पटेल के घर तक।
- पश्चिम — धनराज पटेल के घर से मुकेश यादव, शेषनारायण यादव ईश्वर यादव के मकान होते हुए रोड क्रासिंग कर तुलसी सिन्हा के घर से कार्तिक मरार के घर तक।



**वार्ड क्र. 07 शीतला माता वार्ड**

- उत्तर — आंगनबाड़ी केन्द्र से बाबूलाल पाटिल, भगउ पाटिल, अशोक पटेल से रोड कासिंग कर दूधित पटेल के घर से शीतला मंदिर तक।
- पूर्व — शीतला मंदिर, गोपाल पटेल, कृष्ण कुमारी राजपूत, भोला सिंह ठाकुर के मकान से रोड कासिंग कर चेतन निर्मलकर के घर होते हुए रामखिलावन निषाद, पंचराम, ईतवारी निर्मलकर के मकान तक।
- दक्षिण — ईतवारी निर्मलकर के मकान से प्रमोद सिंह, बिहारी सेन, गैदू तिहारू धोबी के घर होते हुए फिरंता रामकुमार सिंह रामवतार, ईतवारी सिन्हा के बाड़ी तक।
- पश्चिम — ईतवारी सिन्हा के बाड़ी से मनहरण, अशोक, हरि दीवान, धनेश्वर धोबी के घर होते हुए रोड कास कर नोहर पटेल, नवीन प्राथमिक शाला को सम्मिलित करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र तक।

**वार्ड क्र. 08 रानी दुर्गावती वार्ड**

- उत्तर — द्वारिका राम पटेल के मकान से पुशबती, पाहरु कुंभकार, संतोष नामदेव के मकान से संतराम साहू, गंगाधर सिंघानिया, कमलेश यादव के मकान तक।
- पूर्व — कमलेश यादव के मकान से नत्थू पोस्ट मास्टर, रूखमणी सेन, शिवकुमार सिन्हा, तुलसी सिन्हा के मकान होते हुए रोड कासिंग कर रम्हन साहू के मकान तक।
- दक्षिण — रम्हन साहू के मकान से भगत निषाद, हुलास साहू, राधेश्याम धोबी, फिरंता निषाद के मकान होते हुए चैतराम मरार घर अंजू सिंह के घर तक।
- पश्चिम — अंजू सिंह के घर से बिसहत कुंभकार के मकान होते हुए गली कासिंग कर तखत कुंभकार, बीरबल गोड़, रज्जू कुंभकार, दयालू कुंभकार, द्वारिका राम पटेल के घर तक।

**वार्ड क्र. 09 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

- उत्तर — ईतवारी सिन्हा बिसनाथ निषाद रामजी निषाद, बाबूलाल धोबी, फागू निषाद, गणेश निषाद के मकान तक।
- पूर्व — गणेश निषाद के मकान से केजू सिन्हा, अमर सिन्हा, जीवधन सिन्हा के मकान होते हुए गली कासिंग कर जैलाल सिन्हा, पतिराम सिन्हा, अनवर अली मकान से गली कासिंग कर किशुन सिन्हा, पवन सिन्हा, राज सिन्हा के मकान तक।
- दक्षिण — राज सिन्हा के मकान से चीर बंगला होते हुए बालाराम पटेल, रमेश नेताम के मकान होते हुए ईतवारी पटेल के मकान तक।
- पश्चिम — ईतवारी पटेल के मकान से सुन्दरू निर्मलकर, मोहन चौहान, नकूल रगडे, बिसौहा गोड़ के मकान से रोड कासिंग कर मुन्ना साहू के मकान को सम्मिलित करते हुए जगदीश पटेल ईतवारी सिन्हा के मकान तक।

**वार्ड क्र. 10 महात्मा गांधी वार्ड**

- उत्तर — प्रहलाद जोशी के घर से सुरेश सिंघानिया के घर रोड कासिंग कर श्रीराम के घर शंकर सिंह बी.के. टेलर गणेश कुजाम, रोड कासिंग कर गिरधारी देवांगन, सुरेश शर्मा के घर तक।
- पूर्व — सुरेश शर्मा के घर से राधेश्याम सिन्हा, भागवत सिन्हा, फत्तु सिन्हा, खेलावन देवांगन, भागचंद मोती देवांगन, दानी बाबू सालिक देवांगन घर से तालाब पार होते हुए लक्ष्मण सेन के मकान तक।
- दक्षिण — लक्ष्मण सेन के मकान से परसुराम भवन, मदन अग्रवाल, ध्रुव साहू, संतोष सोनी, लतीफ खान दंतेश्वरी मंदिर होते हुए डा. इकबाल के मकान तक।
- पश्चिम — डा. इकबाल के मकान से पुनूराम सिन्हा, बाबूलाल सिन्हा, मोतीराम सिन्हा, भगवानी सिन्हा, संतोष हॉटल को सम्मिलित करते हुए ओम अग्रवाल रोड कासिंग कर अनवर खान गोपाल बंसल प्रहलाद जोशी के घर तक।

**वार्ड क्र. 11 मुसलमान पारा वार्ड**

- उत्तर — सत्तार के घर से लालसहाय, मुराद अली, महमूद ईदू खान के मकान तक।
- पूर्व — ईदू खान के मकान से साबीर खान, ईमाम बेग, कुर्सीद कुरैसी, केजू साहू के मकान होते हुए रोड कासिंग कर बाबूलाल पटेल, साबीर खान के मकान तक।
- दक्षिण — साबीर खान के मकान से खलील खान नासीर कसीमुद्दीन के घर को सम्मिलित करते हुए अजमेर खान के घर रोड कास कर बिसेसर सिन्हा, बेदू सिन्हा, अब्दूल खान के मकान तक।
- पश्चिम — अब्दूल खान के मकान से दाउद खान, रसूल बेग, भोली बी, अमृत सिन्हा के मकान होते हुए अजीमुद्दीन, सत्तार खान के मकान तक।

**वार्ड क्र. 12 मां दंतेश्वरी वार्ड**

- उत्तर — रणदमन सिंह के मकान से नरेश मिश्रा, भैयाराम सोनी, राकेश पाण्डेय, रामकली बाई के मकान होते हुए रोड कासिंग कर सेन पटवारी के मकान तक।
- पूर्व — सेन पटवारी के मकान से संतोषी निषाद आगरमल यादव, सहदेव यादव, शिव नेगी, पूरन मानिकपुरी के मकान तक।
- दक्षिण — पूरन मानिकपुरी के मकान से अशोक लसेल रोड कासिंग कर सनत नेगी, रामकुमार डौण्डेय के मकान होते हुए जगमोहन यादव, भागा बाई, रामफल यादव रोड कासिंग कर त्रिलोच हॉटल जयराम ताम्रकार के मकान तक।
- पश्चिम — जयराम ताम्रकार के मकान से संतोष भट्ट, ओंकार सिन्हा, दौवा प्रसाद नरेन्द्र देवांगन घर को सम्मिलित करते हुए सजीवन भट्ट, घनश्याम तिवारी, गोदावरी मिश्रा, रवि सोनी के घर कास कर रणदमन सिंह के मकान तक।

**वार्ड क्र. 13 श्रीमति इंदिरा गांधी वार्ड**

- उत्तर — हुकुम सिन्हा मकान के दोनो ओर संजय सेन, ओंकार यदु, नरेन्द्र सिंह, स्व. दर्शन दास मानिकपुरी, बहल निर्मलकर के मकान होते हुए गली कासिंग कर फूल बाई यादव के मकान तक।
- पूर्व — फूल बाई यादव के मकान से सनत रजक, बुधारू लहरे, दुखुराम पाटिल को सम्मिलित करते हुए ईश्वर सिन्हा के मकान तक।
- दक्षिण — ईश्वर सिन्हा के मकान से रोड कास कर अग्रवाल हॉटल, दशहरा मैदान, पशु चिकित्सालय को सम्मिलित करते हुए अघनू निषाद, सालिक साहू, गुलाब दास वैष्णव के मकान तक।
- पश्चिम — गुलाब दास वैष्णव के मकान से राजकुमार सेन, अनगैहा निषाद, कार्तिक साहू के मकान होते हुए गली कासिंग कर बराती पाल, गणेश, महेश सिन्हा नवीन प्राथमिक शाला को सम्मिलित करते हुए रोड कासिंग कर रूंगू पाटिल, हवन गोड़, हुकुम सिन्हा के मकान तक।

**वार्ड क्र. 14 डॉ भीमराव अंबेडकर वार्ड**

- उत्तर — हकीम आरा मील मोहन सिन्हा नजीर खान के मकान से रमजान, करीम बेग के मकान को सम्मिलित करते हुए रोड कासिंग कर संतोष साहू, रामस्नेही के मकान तक।
- पूर्व — रामस्नेही के मकान से रोड कासिंग कर रामाधार सिन्हा, लक्ष्मण निषाद, संतोष गोड़ के मकान तक।
- दक्षिण — संतोष गोड़ के मकान से राजकुमार रात्रे, संतोष रात्रे, लखन निषाद, रूंगू पाटिल, सांवत निषाद, संतोष पाटिल, बहल खान के मकान तक।
- पश्चिम — बहल खान के मकान से दिलीप सिंह ठाकुर, शत्रुहन सिन्हा, जैलाल सिन्हा, रफीक खान, मानलाल पटेल, शिव मंदिर को सम्मिलित करते हुए कान्ति गोड़ राजपूत भवन आनंद सिंघानिया बाड़ा रोड कासिंग कर हकीम आरा मिल तक।

**वार्ड क्र. 15 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड**

- उत्तर — धनुष निषाद के मकान से गली कासिंग कर नरेन्द्र तिवारी, शीतला मंदिर को सम्मिलित करते हुए भगवानी सिन्हा, कुमार पाल के मकान तक।
- पूर्व — कुमार पाल के मकान से कुशे पाल, पुरुषोत्तम सिन्हा झड़ीपाल लक्ष्मू पाल भूरुवा पाल रोड कासिंग कर विष्णु पाल रूंगू यादव के मकान होते हुए संतोषी मंदिर तक।
- दक्षिण — संतोषी मंदिर से सन्तु मरार, रामसागर निषाद, कोठिया निषाद, दशरथ साहू, शंकर साहू ईश्वर साहू के मकान को सम्मिलित करते हुए अघनिया साहू के मकान तक।
- पश्चिम — अघनिया साहू के मकान से अश्वनी सोनी, रज्जू यादव, त्रिलोच यादव, मनोहर यादव, मेहत्तर गोंड गली कासिंग कर गिरधर निषाद, अंकलहा निषाद, धनुष निषाद के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक— एफ-1-104/2019/18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-104/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

### NOTIFICATION

No. F-1-104/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Thankhamhariya, Distt. Bemetara as per schedule given Below:-

1. Divides Nagar Panchayat Thankhamhariya in to 15wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

### SCHEDULE

| No. of Wards | Name of Ward                     |
|--------------|----------------------------------|
| 01           | Guru Ghasidas Ward               |
| 02           | Dharamshala Ward                 |
| 03           | Jawahar Lal Nehru Ward           |
| 04           | Gol Bazaar Ward                  |
| 05           | Mahantji Ward                    |
| 06           | Mata Dewala Ward                 |
| 07           | Shitla Mata Ward                 |
| 08           | Rani Durgawati Ward              |
| 09           | Lal Bahadur Shastri Ward         |
| 10           | Mahatma Gandhi Ward              |
| 11           | Musalman Para Ward               |
| 12           | Maa Danteshwari Ward             |
| 13           | Smt. Indra Gandhi Ward           |
| 14           | Dr. Bhimrao Ambedkar Ward        |
| 15           | Netaji Shubhas Chandra Bose Ward |

**Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat**  
**Thankhamhariya**

**Ward no.1 Guru Ghasidas Ward**

- North- From The Jagdish Yadu, Anandaram Mehar house to Hari Narang house, including Divakar Maharaj house to The house of Gita Narang.
- East- From the Gita Narang house to thanedar quarter Passing Through upto the mangal bhawan to old gram panchayat bhawan.
- South- From the old gram panchayat bhawan Passing Through the house of Lal Bahadur to the house of Ragvendra.
- West- From The Ragvendra house to Jaithkham, from Pargan house Passing Through the House of Jagdish Yadu from The Sulabh Sauchalaya.

**Ward no.2 Dharamshala ward**

- North- From The Munna Mandale house to Umraonagar road Mai Temple, Passing Through the Shani Temple, to Payare Sinha, Santosh Sinha house to street Cross to Jaitram Sinha, Chedu Srivas house.
- East- From The Chedu Srivas house Amarlal Khetaha house to Passing Through the Suryanarayan, Tikeswar Yadav lane Cross Susil Bangli house.
- South- From The Susil Bangli house Bank of Baroda (Dena Bank) Dr.R.P. Sharma Hospital to Mahendra Singh Viridi, to Passing Through the Pawan Murarka house to Thakur Medical.
- West- From the Thakur Medical to Old govt. Hospital Murari Tiwari Hotel to Police Station Complex to Munna Mandle's house.

### Ward no.3 Jawahar lal Nehru ward

- North- From The Ashish Rajput house to sharwan sinha, gurucharan singh ,sumit jain road cross bali khumbhkar house to bhanupratap singh, ramavtar singh thakur house.
- East- From the Ramavtar Singh Thakur ikbal, Rajesh Singh Thakur house to chatru agarwal house including girls hig. Sec. and Passing Through the primary school to mehtar house, including kariya mill to prem parmar, sarasawati shishu mandir school to narendra singh thakur house.
- South- From The Narendra Singh Thakur house Sahdev koraam house to road crossing to chinta mani sinha (hemant restrorant) house to panchram nirmalkar, ramadhar sinha, raj sinha, Moti Sinha house.
- West- From the Moti Sinha house Dr. masturiya house to narendra patil, Sitaram Sinha, Ramlal Dewangan, sainath public school, yogesh sahu mobile shop to Ashish Rajput house.

### Ward no.4 Gol bazaar ward

- North- From The Surjeet house to including the road cross to Suresh Kedia house to Passing Through the house of Shankar Kedia.
- East- From The Shankar Kedia Bajrang Kedia house to Ram Singh house, cross the lane from Vishnu Book Depot to Sumit Jain, Baldev Bada Jal Mongra Talab, Vishwaraj Singh, Sanjay Bada.
- South- From The Sanjay Bada house, ganesh agarwal house to Raghav complex including road crossing to yogesh singhniya house.
- West- From The yogesh singhniya house Hari sen including jamat mandir to ashok joshi, govind Sharma including road crossing old dharamshala to surjit house.

**Ward no.5 Mahantji ward**

- North- From The Gajan Bai, Munna Yadav, jaikaran, biswantin house to road crossing duwarika dhobi, harikrishn banchord, sahaban ali, ghanshyam agarwal, sushil yadav to road crossing ganesh dubey, azim khan, boys high school.
- East- From The Boys High School to parminder house to Passing Through the mandale babu house to both side of street of balram bais house.
- South- From The Balram Bais house To middle school to rashan shop to Passing Through the bhiya ji house to ruhi bai house.
- West- From Ruhi Bai House To kamlesh nirmalkar house to road crossing bihari nirmalkar, khelwan bhoi to road crossing to gajan bai house.

**Ward no.6 Mata dewala ward**

- North- From The kartik ram marar house to jagmohan yadav, ganesh nirmalkar, bansi nirmalkar, ajay nagwansi house.
- East- From The Ajay Nagwansi House To jairam yadav house to ramji yadav, jagdish yadav to Passing Through the vishkarma mandir to crossing pond to Shankar kumbhkar house.
- South- From The Shankar Kumbhkar House to manoj kubhkar house to shitla manas manch, paras sahu, dhanraj patel house.
- West- From The Dhanraj Patel House to Mukesh yadav house to seshnarayan yadev, to Passing Through the ishwar yadav house to road crossing tulsi sinha house to kartik ram marar house.

**Ward No.7 Shitla mata ward**

- North- From The Aaganbadi center to Babulal patil , Bhagau patil, ashok patel house to road crossing Dudhit patel house to shitla mandir.
- East- From The Shitla Mandir to Gopal patel house to krishn kumari rajput, bhola singh thakur house to road crossing to Passing Through the chetan nirmalkar house to ramkhilawan nishad, panchram, itwari nirmalkar house.
- South- From The Itwari Nirmalkar House to Pramod singh house to bihari sen, to Passing Through the gendu tiharu dhobi house to firanta ramkumar singh, ramavtar house to itwari sinha badi.
- West- From the Itwari Sinha badi, manharan house to ashok, hari diwan house to Passing Through the dhaneshwari dhobi road crossing nohar patel house to navin primary school to aaganbadi center.

### Ward no.8 Rani durgawati ward

- North- From the duwarika ram patel house to pushbati, paharu khumbhkar, santosh namdev house to santram sahu, gangadhar singhnaiya, kamlesh yadav house.
- East- From the Kamlesh Yadav House, nathu postmaster house to rukhmani sen, shiv kumar sinha, to Passing Through the tulsi sinha house to road crossing ramhan sahu house.
- South- From the Ramhan Sahu House, bhagat nishad, hulas sahu, radheshayam dhobi, to Passing Through the firanta nishad house to chaitram marar house to anju singh house.
- West- From the Anju Singh House, to Passing Through the bisahat khumbhkar house to street crossing takhat khumbhkar, birbal goand, raju khumbhkar, dayalu khumbhkar house to Dwarika ram patel house.

### Ward no.9 Lal bahadur shastri ward

- North- From the itwari sinha, bisnath nishad, ramji nishad, babulal dhobi, fagu nishad, ganesh nishad house.
- East- From the Ganesh Nishad House, keju sinha house to amar sinha, to Passing Through the jivdhan sinha house to street crossing jailal sinha, patiram sinha, anwar ali house to road crossing kisun sinha, pawan sinha, Raj Sinha house.
- South- From The raj sinha house to chir bangla to balaram patel, to Passing Through the ramesh netem to itwari patel house.
- West- From The Itwari Patel House, sundaru nirmalkar house to mohan chouhan, nakul ragde, bisauha goad house to including road crossing munna sahu house to jagdish patel, itwari sinha house.

### Ward no.10 Mahatma Gandhi ward

- North- From the prahalad joshi house to suresh singhniya house to road crossing shriram house to Shankar singh, b. k tailor, ganesh kunjam road crossing to girdhari dewangan, suresh Sharma house.
- East- From the Suresh Sharma House, radhe shyam sinha house to bhagwat sinha, phattu sinha, khelawan dewangan house to bhagchand, moti dewangan, dani babu, to Passing Through the salik dewangan house to crossing pond to lakshman sen house.
- South- From the Lakshan sen House, parsuram bhawan to madan agarwal, narayan singh thakur, jagmohan jaiswal house to dhru sahu, janardhan prashad tiwari, santosh soni to latif khan to Passing Through the denteshwari mandir to Dr. ikbal house.
- West- From the Dr. Ikbal House, punuram sinha house to babulal sinha, motiram sinha, bhagwani sinha, including santosh hotel to om agarwal road crossing to anwar khan, gopal bansal house to prahalad joshi house.



**Ward no.11 Musalman para ward**

- North- From the sattar house to lalsahay, murad ali, Mahmud idu khan house.
- East- From the Mahmud Idu Khan sabir khan house to emam beg, khurshid kureshi, Mahmud keju sahu house to road crossing babulal patel, shabir khan house.
- South- From the Shabir Khan House, khalil khan, nasir kusumudin house including ajmer khan house to road crossing to bisesar sinha, bedu sinha house to abdul khan house.
- West- From the Abdul Khan House, daud khan house to rasul beg, bholi bi, to Passing Through the amrit sinha house to ajumudin, sattar khan house.

**Ward no.12 Maa danteshwari ward**

- North- From the randaman singh house to naresh mishra, bhiyaram soni, rakesh pandey, to Passing Through the ramali bai house to road crossing to sen patwari house.
- East- From the Sen Patwari House, santoshi nishad, agarmal yadav house to sahdev yadav, shiv negi, to Passing Through the puran manikpuri house.
- South- From the Puran Manikpuri House, ashok lasel house to road crossing to sanat negi, to Passing Through the Ramkumar Doondy house to jagmohan yadav, bhaga bai, pardesi nishad, anil yadav, Ramfal yadav, house to road crossing to trilochan hotel, nijam cycle store, to jairam tamrakar house.
- West- From the Jairam Tamrakar House, omkar sinha house to dauwa prashad including narendra dewangan to santosh bhat street crossing sajiwan bhat, ghanshyam tiwari, godawari mishra, ravi soni house crossing to randaman singh house.

### Ward no.13 Smt. Indra Gandhi ward

- North- From the both side of hukum sinha House, sanjay sen, okar yadu, narendra singh house to late darshan das manikpuri, to Passing Through the bahal niramkar house to street crossing to phool bai yadav house.
- East- From the Phool bai Yadav House, sanat razak house to including both side of fish market bachan sinha, budharu lahare, including dukharam patil to ishwar sinha house.
- South- From The Ishwar Singha House, agarwal hotel to dashera ground including animal hospital to aghnu nishad house to salik sahu, gulab das vaishanav house.
- West - From The Gulab Das Vaishanav House, rajkumar sen house to angaiha nishad, to Passing Through the kartik sahu house to street crossing to barati pal, ganesh, Mahesh sinha, including naveen primary school to road crossing to rungu patil, hawan gond, hukum sinha house.

### Ward No.14 Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward

- North- From the hakim saw mill, mohan sinha, najir khan house to ramjan, karim beg house including road crossing to santosh sahu, ramsnehi house.
- East- From the ramsnehi house to road crossing to ramadhar sinha, lakshman nishad, santosh gond house.
- South- From the Santosh Gond House, rajkumar ratre house to santosh ratre, lakhan nishad, rounu patil, sawant nishad, santosh patil, bahal khan house.
- West- From the Bahal Khan House, dilip singh thakur house to satrugan sinha house to samudayik bhawan to jailala sinha, rafik khan, maanlal pat house to shiv mandir including kanti gond rajput bhawan to anand singhniya bada road crossing to hakim saw mill.

**Ward no. 15 Neta ji shubhas Chandra bose ward**

- North- From the dhanush nishad house to lane crossing narendra tiwari house to including shitla mandir to bhagwani sinha, kumar pal house.
- East- From the Kumar Pal House, kushe pal house to purushotaam sinha, jhadipal, lakshmu pal, bhuruwa pal house to road crossing to Vishnu pal, rungu yadav house to santoshi mandir.
- South- From the Santoshi Mandir, santu marar house to ramsagar nishad , kothiya nishad, dashrath sahu, sankar sahu incuding ishwar sahu house to aghniya sahu house.
- West- From The Aghniya Sahu house, aswani soni house to rajju yadav, trilochan yadav, manohar yadav, mehtar gond house to street crossing to girdhar nishad, ankalha nishad house to Dhanush Nishad house.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,

R.EKKA, Deputy Secretary.